

भा. कृ. अनु. प. - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली
सतावनवाँ दीक्षांत समारोह
तृतीय दिवस : दिनांक 6 फरवरी 2019

वर्ष 2018-19 के दौरान छात्रों की महत्वपूर्ण अनुसंधान उपलब्धियों के लिए संबंधित प्राध्यापकों द्वारा
प्रस्तुतीकरण एवं विभिन्न मेमोरियल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के व्याख्यान

57 वें भा.कृ.अनु.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सतावनवें दीक्षांत समारोह सप्ताह (4 से 8 फरवरी 2019) के तीसरे दिन वर्ष 2018-19 के दौरान सामाजिक विज्ञान के स्नातकोत्तर छात्रों की महत्वपूर्ण शोध उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण संबंधित प्राध्यापकों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में डॉ. (श्रीमती) अलका सिंह, प्राध्यापक, कृषि अर्थशास्त्र संभाग; डॉ. आर.एन. पडारिया, प्राध्यापक, कृषि प्रसार संभाग; डॉ. सीमा जग्गी, प्राध्यापक, कृषि सांख्यिकी; डॉ. ए.आर. राव, प्राध्यापक, जैव सूचना विज्ञान एवं डॉ. सुदीप मारवाह, प्राध्यापक, कंप्यूटर अनुप्रयोग ने इस स्कूल की प्रमुख उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण किया।

इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. पी.के. जोशी, निदेशक, दक्षिण एशिया, इफपी, नई दिल्ली ने की। सामाजिक विज्ञान स्कूल के अंतर्गत आई.पी.जी.एस. में अनुकूलन, समुत्थानशीलता और लाभदायकता पर जलवायु स्मार्ट प्रौद्योगिकियों के प्रभाव; टपक सिंटाई के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव; कृषि आय बढ़ाने में मूल्य संवर्धन की भूमिका; मूल्य श्रृंखला वित्त निर्धारण; समन्वित कृषि प्रणाली मॉडलों का सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण; अपूर्ण फ्रैक्शनल उपचारों के लिए डिजाइन; स्पेशियल सांख्यिकी के उपयोग द्वारा मृदा स्वास्थ्य आकलन आदि विषयों पर प्रस्तुतीकरण किए गए। इस सत्र का संचालन डॉ. एस. नरेश कुमार, प्राध्यापक, पर्यावरण विज्ञान ने की। डॉ. (श्रीमती) रश्मि अग्रवाल, अधिष्ठाता एवं संयुक्त निदेशक (शिक्षा) ने भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

अपराहन सत्र में कृषि क्षेत्र के विभिन्न मेमोरियल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के व्याख्यान हुए, जिसमें पचीसवें हुकर पुरस्कार प्राप्त डॉ. रवीश चतरथ, प्रधान वैज्ञानिक, भा.कृ.अनु.प.-भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल (डॉ. आर.बी. सिंह, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय किसान आयोग के चेयरमैनशिप में); सतरहवें बी.पी. पाल पुरस्कार प्राप्त डॉ. धर्मेन्द्र सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, आनुवंशिकी संभाग (डॉ. दीपक पेंटल, प्राध्यापक, आनुवंशिकी संभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, साउथ कैंपस की चेयरमैनशिप में); उन्नीसवें श्री हरिकिशन शास्त्री स्मारक पुरस्कार प्राप्त डॉ. शेली प्रवीण, अध्यक्ष, जीवरसायन संभाग, भा.कृ.अ.संस्थान (डॉ. अखिलेश कुमार त्यागी, प्राध्यापक एवं जे.सी. बोस फैलो, दिल्ली विश्वविद्यालय, साउथ कैंपस के चेयरमैनशिप में); सातवें राव बहादुर बी. विश्वनाथ पुरस्कार प्राप्त डॉ. एम.एस. चौहान, निदेशक, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान (डॉ. एस.ए. पाटिल, पूर्व निदेशक, भा.कृ.अ. संस्थान के चेयरमैनशिप में) के प्रस्तुतीकरण हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. आर.के. सिंह, निदेशक, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने की।